

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2647]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2013/अग्रहायण 6, 1935

No. 2647]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2013/AGRAHAYANA 6, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2013

का.आ. 3493(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश राज्य में मल्लावरम—भोपाल—भीलवाड़ा—विजयपुर नेचरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत बगवाड़ा से दौराना (गुना स्पर लाइन) तक प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री एच. एस. रावत, सक्षम प्राधिकारी, मल्लावरम—भोपाल—भीलवाड़ा—विजयपुर नेचरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क, जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड, 468, सेक्टर-ए, शाहपुरा, भोपाल-462016, मध्यप्रदेश को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

राज्य : मध्यप्रदेश

क्रम सं.	ग्राम का नाम	सर्वे नं./ब्लाक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	टोड़ी	1056	00	05	24
		9 / 3	00	03	50
2	गुजरखेड़ी कला	148	00	20	45
3	मऊ	1133 / 1	00	18	73
		1133 / 2	00	08	22
		1133 / 3	00	03	11
		1134	00	00	80
4	शम्भुपुरा	85	00	07	63
		133 / 2	00	15	18
5	परलापुरा	502	00	09	05
6	सुठालिया	954 / 1	00	11	27
		954 / 2	00	18	87
		814 / 1	00	15	77
7	लक्ष्मण पुरा	12 / 5	00	12	13
8	खनोटा	751 / 1	00	10	89
9	पारसाना	110 / 1 / 2	00	07	32
		110 / 3	00	03	49
10	पिपल्या पेंडाल	317 / 2 / 2 / 1	00	03	37

[फा. सं. एल-14014/61/2012-जीपी]

श्रीप्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, 25th November, 2013

S.O. 3493(E).—Whereas. it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas from Bagwada to Dorana (Guna Spur line) under Mallavaram-Bhopal-Bhilwada-Vijaypur Gas Pipeline Project, a Pipeline should be laid in the state of Madhya Pradesh by GSPL India Transco Ltd. (GITL).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on

which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri H.S. Rawat, Competent Authority, Mallaram-Bhopal-Bhilwara-Vijaypur Natural Gas Pipeline Project, GSPL India Transco Limited, 468, Sector-A, Shahpura Bhopal (Madhya Pradesh) .

SCHEDULE

TEHSIL : BYAWARA		DISTRICT : RAJGADH		STATE : MADHYA PRADESH		
Sr. No.	Name of Village	Khasara No.		Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3		4	5	6
1	TODI		1056	00	05	24
			9/3	00	03	50
2	GUJARKHEDI KALA		148	00	20	45
3	MAU		1133/1	00	18	73
			1133/2	00	08	22
			1133/3	00	03	11
			1134	00	00	80
4	SHAMBHUPURA		85	00	07	63
			133/2	00	15	18
5	PARALAPURA		502	00	09	05
6	SUTHALIYA		954/1	00	11	27
			954/2	00	18	87
			814/1	00	15	77
7	LAXMANPURA		12/5	00	12	13
8	KHANOTA		751/1	00	10	89
9	PARSANA		110/1/2	00	07	32
			110/3	00	03	49
10	PIPALIYA PENDAT		317/2/2/1	00	03	37

[F. No. L-14014/61/2012-GP]

S. P. AGARWAL, Under Secy.